



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4—अगस्त 10, 2007 (श्रावण 13, 1929)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4—AUGUST 10, 2007 (SRAVANA 13, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 अगस्त 2007

सेना शाखा

सं. 400, दिनांक 16 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित महिला अधिकारियों को ले. के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना
(अल्प सेवा आयोग)

ले. के पद पर

1. निम्नलिखित महिला अधिकारियों, जो डब्ल्यूएसईएस(ओ)-27 कोर्स की हैं, ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि 18 मार्च 2006 से आरम्भ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि 18 मार्च 2006 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अंतर्गत ले. के पद पर पांच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है :--

प्रतिक्षा चौहान (डब्ल्यूएस नं. 01147एच), एओसी निर्दिष्टता ज्येष्ठता ले. सोनिया भारद्वाज (डब्ल्यूएस नं. 01146ए), जेएजी, नवले सुचित्रा संभजी (डब्ल्यूएस नं. 01155एफ), एएडी निर्दिष्टता ज्येष्ठता ले. सुरभि सिंह (डब्ल्यूएस नं. 01154वाई), एओसी, मनाली खंगारोत (डब्ल्यूएस नं. 01168वाई), इन्ट निर्दिष्टता ज्येष्ठता

ले. दिवकल रावत (डब्ल्यूएस नं. 01167डब्ल्यू), एओसी एवं बिन्दु अग्निहोत्री (डब्ल्यूएस नं. 01184डब्ल्यू) निर्दिष्टता ज्येष्ठता ले. संदीपिका खारा (डब्ल्यूएस नं. 01183एन) एएससी जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में दिनांक 21 अप्रैल 2007 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

2. सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अंतर्गत निम्नलिखित महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) ले. के पद पर उनके नाम के साथ दर्शाई गई तिथि से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अंतर्गत 18 मार्च 2006 से पांच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 21 मार्च 2004 से वेतन तथा प्रोन्नति के लिए उपरोक्त सेनानुदेश के अंतर्गत वरीयता प्रदान किया जाता है :--

प्रज्ञा सिंघवी (डब्ल्यूएस नं. 01159एक्स), सिग्नल (विशेष अल्प सेवा आयोग परखाधीन तिथि 08 अक्टूबर 2005) निर्दिष्टता ज्येष्ठता ले. चेलुर सुमलता नागराज (डब्ल्यूएस नं. 01156के), ईएमई एवं तनु मलिक (डब्ल्यूएस नं. 01205एफ), एओसी (विशेष अल्प सेवा आयोग परखाधीन तिथि 03 अक्टूबर 2005) निर्दिष्टता ज्येष्ठता ले. आशा रोशिनी एमएस (डब्ल्यूएस नं. 01202एन), सिग्नल जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में

दिनांक 21 अप्रैल 2007 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

चन्द्रशेखर
ले. कर्नल

सहायक सेना सचिव 8 बी

वायु शाखा

सं. 401, दिनांक 17 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वासेमू/24745/4/पीपी(ओ)/पीसी. I/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर तरुणा यादव (29413), 02 जनवरी 2007 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर अश्विनी भरत कदम (29172), और भारती वत्स (29173), 03 जुलाई 2006 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित यू/टी ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
मौसम शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर सारलंब देन्नी सिंह (29411) और राहुल शर्मा (29412), 02 जनवरी 2007 से प्रभावी

फ्लाईंग ऑफिसर अनिल (29171), 03 जुलाई 2006 से प्रभावी।

एन विजय कुमार
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(डी)

सेना शाखा

सं. 402, दिनांक 18 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान कन्दुला कृष्णा मोहन (एमएस-14297एक्स) (एमआर-08455एल), एएमसी, 21 जनवरी 2006

कप्तान हर्ष मोहिन्दर सिंह (एमएस-14511पी) (एमआर-08459एफ), एएमसी, 28 जनवरी 2007

प्रिती त्रिपाठी (एमएस-13901एल) (एमआर-08321एम), एएमसी, 11.12.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25.12.2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

आनन्द गुप्ता (एमएस-14691एच) (एमआर-08436ए), एएमसी, 09.12.2004 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.06.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अवनिश करण (एमएस-14458पी) (एमआर-08439एन), एएमसी, 19.06.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15.04.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

नुसुमु पुरनाचन्द्रा राव (एमएस-14210एल) (एमआर-08442एन), एएमसी, 08.02.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03.09.2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान नवीन चन्द्र (एमएस-14433एच) (एमआर-08457डब्ल्यू), एएमसी, 27.12.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24.04.2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मनोज कुमार सिंह (एमएस-13631एफ) (एमआर-08471एच), एएमसी, 09.01.2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13.12.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बिपिन प्रदीप थोमस (एमएस-14124ए) (एमआर-08112पी) एएमसी, 10 जनवरी 2005

सुमित लधवाला (एमएस-14435एन) (एमआर-08472एल), एएमसी, 13.03.2006 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17.02.2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

जस्मीत खन्ना (एमएस-13338के) (एमआर-08453ए), एएमसी, 14.11.2000 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04.08.2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

मुकेश कुमार चौधरी (एमएस-14032एन) (एमआर-08454एच), एएमसी, 03.02.2004 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30.04.2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान योगेन्द्र यादव (एमएस-13528डब्ल्यू) (एमआर-08470ए), एएमसी, 08.11.2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12.10.2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

प्रसाद बी एस आर के (एमएस-14315पी) (एमआर-08309एल), एएमसी, 21 जनवरी 2006

मेजर विवेक कुमार तिवारी (एमआर-08396के), एएमसी,
24.08.2006

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

संगप्पा शंकर राव (एमएस-14251पी) (एमआर-08441एल)
(एएफ-26473आर), एएमसी, 05.07.2005 (भारत सरकार के राजपत्र
के दिनांक 17.06.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का
संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

पल्लवी गोस्वामी (एमएस-14301पी) (एमआर-08443डब्ल्यू)
(एएफ-26498एफ), एएमसी, 21.01.2003 (भारत सरकार के राजपत्र
के दिनांक 23.06.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का
संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

आनंद पी (एमएस-13542एच) (एमआर-08326एल)
(75658जेड), एएमसी, 28.12.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के
दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध
। जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

शिवानन्द दलावाई (एमएस-14094एन) (एमआर-08320के)
(75742आर), एएमसी, 22.01.2005 (भारत सरकार के राजपत्र के
दिनांक 15.04.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का
संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

परिनिता दुबे (एमएस-13357पी) (एमआर-08483एक्स)
(नेवि-75647जेड), एएमसी, 14.05.2001

विक्रम सिंह (एमएस-14330के) (एमआर-08251वाई) (नेवि-
75791ए), एएमसी, 21.07.2005

राजेश कामरान
ब्रिगे.

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स.)

सं. 403, दिनांक 17 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदाधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी-56888 अर्नाबेश मित्रा, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

शिव राम बैरवा
उप निदेशक
एमएस 8 सी

सं. 404, दिनांक 18 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते
हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

सन्तोष कुमार मिश्रा (एमआर-08223एम), एएमसी, 25 फरवरी
2006

बलबीर सिंह (एमआर-08294एन), एएमसी, 05 फरवरी 2007

अमित कुमार (एमआर-08440एच), एएमसी, 21 मार्च 2007

इन्दरजित सिंह मोंगा (एमआर-08288ए), एएमसी, 12 मार्च 2007

पोशन ज्योती वोरपूजारी (एमआर-08398पी), एएमसी, 15 मार्च
2007

अजित भारद्वाज (एमआर-08302एफ), एएमसी, 02 अप्रैल 2007

विकास पुरी (एमआर-08390एच), एएमसी, 24 जनवरी 2007

संदीप पुणिय (एमआर-08389एन), एएमसी, 27 जनवरी 2007

बिनु शेखर एम (एमआर-08247डब्ल्यू), एएमसी, 29 जनवरी 2007

बिक्रम कुमार दत्ता (एमआर-08249एफ), एएमसी, 18 फरवरी 2007

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

प्रीति त्रिपाठि (एमआर-07694एन) (एएफ-26908), एएमसी, 04
मार्च 2007

अनुज सिंहल (एमआर-07718एम) (एएफ-26912), एएमसी, 04
मार्च 2007

विजय कुमार झा (एमआर-07741ए) (एएफ-26909), एएमसी,
04 मार्च 2007

जी रवीन्द्रनाथ
ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स.)

सं. 405, दिनांक 13 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

ले. पी सी गजभियै (टीए-41682), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004

ले. टी पी सिंह (टीए-41734), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004

ले. एस वी वागमारे (टीए-42236), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004

ले. एस के सागर (टीए-42248), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004

ले. वी के जैन (टीए-42249), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004

ले. एम जी गुरुमुखी (टीए-42268), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 ले. एस के चौधरी (टीए-42274), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 ले. ऋषि लाल (टीए-42291), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 ले. तरुण हरिया (टीए-42405), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 ले. नरेन्द्र सिंह नेगी (टीए-42409), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004

एन. कालियप्पन
 अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 406, दिनांक 18 जुलाई 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 18 जुलाई 2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

निशान्त डाडा राव मेन्थे (एम एस-14152एम) (एम आर-08433एम) (ए एफ-26074के), एएमसी, 24 जुलाई 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

फ्लाईट लेफ्टिनेंट संगप्पा शंकर राव (एम एस-14251पी) (एम आर-08441एल) (ए एफ-26473आर), एएमसी, 05 जुलाई 2001

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट पल्लवी गोस्वामी (एम एस-14301पी) (एम आर-08443डब्ल्यू) (ए एफ-26498एफ), एएमसी, 21 जनवरी 2002 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21 जनवरी 1999 से ही जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम. डी. फिजियोलोजी के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट निशान्त डाडा राव मेन्थे (एम एस-14152एम) (एम आर-08433एम) (ए एफ-26074के), एएमसी, 24 जनवरी 2001 (वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 24 जुलाई 2000 से ही जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के

लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

सर्जन लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह (एम एस-14330के) (एम आर-08251-वाई) (नेवि-75791ए), एएमसी, 21 जनवरी 2002 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21 जुलाई 2001 से ही जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 दिसम्बर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 10 जनवरी 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

कप्तान गुरतेज सिंह (एम एस-14493एक्स) (एम आर-08473एन), एएमसी, 19 दिसम्बर 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18 सितम्बर 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

प्रतीति त्रिपाठि (एम एस-13901एल) (एम आर-08321एम), एएमसी, 11 दिसम्बर 1999 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक के 09 मार्च 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

प्रसाद बी एस आर के (एम एस-14315पी) (एम आर-08309एल), एएमसी, 21 जनवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

हरविन्दर पल सिंह सहोटा (एम एस-14505एफ) (एम आर-08332वाई), एएमसी, 07 जनवरी 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

शिवानन्द दलावाइ (एम एस-14094एन) (एम आर-08320के), (75742आर) एएमसी, 22 जनवरी 2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

आनन्द पी (एम एस-13542एच) (एम आर-08326एल), (75658जैड) एएमसी, 28 दिसम्बर 1998 (भारत सरकार के राजपत्र

के दिनांक 05 फरवरी 2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 15 जून 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान के पद पर

कप्तान अनुराग जैन (एम एस-14769एच) (एम आर- 08469एल), एएमसी, 17 फरवरी 2004 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान विद्या विशाल (एम एस-14747के) (एम आर- 08466एक्स), एएमसी, 08 दिसम्बर 2003 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान गिरीश भारद्वाज (एम एस-14666के) (एम आर- 08463के), एएमसी, 18 नवम्बर 2003 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान गुन्जन राय (एम एस-14627एल) (एम आर-08461वाई), एएमसी, 07 अप्रैल 2003 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान आनंद गुप्ता (एम एस-14691एच) (एम आर-08436ए), एएमसी, 09 दिसम्बर 2003 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 09 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी (इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान अवनिश करण (एम एस-14458पी) (एम आर-08439एन), एएमसी, 19 दिसम्बर 2002 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 19 जून 1999 से दी जाएगी इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी (ई एन टी) और अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 42 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान नवीन चन्द्र (एम एस-14433एच) (एम आर-08457डब्ल्यू), एएमसी, 27 फरवरी 2002 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 27 फरवरी 1999 से दी जाएगी इसमें मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए

गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान नुसुमु पुरनाचन्द्रा राव (एम एस-14210एल) (एम आर- 08442एन), एएमसी, 08 फरवरी 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 08 फरवरी 1999 से दी जाएगी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालीफिकेशन मास्टर ऑफ सर्जरी (ओटोरहीनोलारनगोलजी) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 04 दिसम्बर 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान के पद पर

कप्तान मनोज कुमार सिंह (एम एस-13631एफ) (एम आर- 08471एच), एएमसी, 09 जुलाई 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 09 जनवरी 1999 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 मार्च 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

सुमित लधवाला (एम एस-14435एन) (एम आर- 08472एल), एएमसी, 13 मार्च 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान जस्मीत खन्ना (एम एस-13338के) (एम आर- 08453ए), एएमसी, 12 दिसम्बर 1997 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 दिसम्बर 1995 से दी जाएगी। इसमें एम. डी. (मेडिसिन) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान मुकेश कुमार चौधरी (एम एस-14032एन) (एम आर- 08454एच), एएमसी, 03 फरवरी 2000 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 29 जून 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान यागैन्दर यादव (एम एस-13528डब्ल्यू) (एम आर-08470ए), एएमसी, 08 नवम्बर 1997 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 फरवरी 2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान राजेश गिरधर (एम एस-14762वाई) (एम आर-08468एच), एएमसी, 17 फरवरी 2004 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15 अप्रैल 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान आलोक जयसवाल (एम एस-14821ए) (एम आर-08481एम), एएमसी, 17 फरवरी 2004 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान कुमारी राधिका (एम एस-14760एन) (एम आर-08479पी), एएमसी, 17 फरवरी 2004 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान तनू त्रिपाठी (एम एस-14748एम) (एम आर-08478एम), एएमसी, 09 दिसम्बर 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान विवेक तिवारी (एम एस-14746एफ) (एम आर-08477के), एएमसी, 04 दिसम्बर 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान सीमा शर्मा (एम एस-14684एम) (एम आर-08476एफ), एएमसी, 08 दिसम्बर 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान मनीष कुमार (एम एस-14564एन) (एम आर-08474डब्ल्यू), एएमसी, 17 मार्च 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान रोहित टंडन (एम एस-14570एफ) (एम आर-08460डब्ल्यू), एएमसी, 07 अप्रैल 2003 (भारत सरकार के राजपत्र

के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान कन्दुला कृष्णा मोहन (एम एस-14297एक्स) (एम आर-08455एल), एएमसी, 21 जनवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 दिसम्बर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान हर्ष मोहिन्दर सिंह (एम एस-14511पी) (एम आर-08459एफ), एएमसी, 28 जनवरी 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

सर्जन लेफ्टि के पद पर

सर्जन लेफ्टि राकेश कुमार सिंह (एम एस-14630एल) (एम आर-08462एफ) (नेवि-75819आर), एएमसी, 07 अप्रैल 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 05 दिसम्बर 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टि के पद पर

सर्जन लेफ्टिनेन्ट परिनिता दुबे (एम एस-13357पी) (एम आर-08483एक्स) (नेवि-75647-एल), एएमसी, 14 नवम्बर 1997 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 14 मई 1997 से ही जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 सितम्बर 2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th August 2007

(ARMY BRANCH)

No. 400, the 16th July 2007.—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

1. The undermentioned Lady Cadets of WSES(O)-27 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 18 Mar 2006. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 18 Mar 2006 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended :—

Pratiksha Chauhan (WS-01147H), AOC with seniority next below to Lt Sonia Bhardwaj (WS-01146A), JAG, Navle Suchetra Sambhaji (WS-01155F), AAD with seniority next below to Lt Surabhi Singh (WS-01154Y), AOC, Manali Khangarot (WS-01168Y), INT with seniority next below to Lt Twinkle Rawat (WS-01167W), AOC and Bindu Agnihotri (WS-01184W), AOC with seniority next below to Lt Sandeepika Khara (WS-01183N), ASC whose names are published in the Gazette of India on 21 Apr 2007.

2. The undermentioned Lady Cadets are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum 9 dt. 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) wef date shown against their Names. On successful completion of their training at OTA Chennai, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, i.e., they are granted Short Service Commission for five years wef 18 Mar 2006. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 21 Mar 2004 for possession of technical qualification under the above AI :—

Pragya Singhvi (WS-01159X), Sigs (Effective date of Special SSC on probation : 08 Oct 2005) with seniority next below to Lt Chelur Sumalata Nagaraj (WS-01156K), EME and Tanu Malik (WS-01205F), AOC (Effective date of Special SSC on probation : 03 Oct 2005) with seniority next below to Lt Asha Roshini MS (WS-01202N), Sigs whose names are published in the Gazette of India on 21 Apr 2007.

CHANDER SHEIKHAR

Lt Col

AMS 8B

(AIR BRANCH)

No. 401, the 17 July 2007.—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Taruna Yadav (29413) wef 02 Jan 2007.

Fg Offr Ashwini Bharat Kadam (29172) and Bharti Vats (29173) wef 03 Jul 2006.

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Sarungbam Denny Singh (29411) and Rahul Sharma (29412) wef 02 Jan 2007.

Fg Offr Anil (29171) wef 03 Jul 2006.

N VIJAY KUMAR

Wg Cdr

JDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 402, the 18th July 2007.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against them :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Kandula Krishna Mohan (MS-14297X) (MR-08455L), AMC, 21 Jan 2006.

Harsh Mohinder Singh (MS-14511P) (MR-08459F), AMC, 28 Jan 2007.

(Miss) Preeti Tripathi (MS-13901L) (MR-08321M), AMC, 11 Dec 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 25 Dec 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Anand Gupta (MS-14691H) (MR-08436A), AMC, 09 Dec 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Awanish Karan (MS-14458P) (MR-08439N), AMC, 19 Jun 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Nusumu Purnachandra Rao (MS-14210L) (MR-08442N), AMC, 08 Feb 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Naveen Chandra (MS-14433H) (MR-08457W), AMC, 27 Feb 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 24 Apr 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Manoj Kumar Singh (MS-13631F) (MR-08471H), AMC, 09 Jan 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 13 Dec 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Bipin Pradip Thomas (MS-14124A) (MR-08112P), AMC, 10 Jan 2005.

Sumit Lathwal (MS-14435N) (MR-08472L), AMC, 13 Mar 2006.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Jasmeet Khanna (MS-13338K) (MR-08453A), AMC, 14 Jan 2000.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Aug 2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Mukesh Kumar Choudhary (MS-14032N) (MR-08454H), AMC, 03 Feb 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Yogender Yadav (MS-13528W) (MR-08470A), AMC, 08 Nov 2001.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Oct 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Prasad B S R K (MS-14315P) (MR-08309L), AMC, 21 Jan 2006.

Vivek Kumar Tiwari (MR-08396K), 24 Aug 2006

Flt Lt to be Sqn Ldr

Sangappa Shanker Rao (MS-14251P) (MR-08441L), (AF-26473R), AMC, 05 Jul 2005.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Pallavi Goswami (MS-14301P) (MR-08443W), (AF-26498F), AMC, 21 Jan 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 23 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Anand P (MS-13542H) (MR-08326L), (75658Z), AMC, 28 Dec 2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shivanand Dalawai (MS-14094N) (MR-08320K), (75742R), AMC, 22 Jan 2005.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

(Miss) Parinita Dube (MS-13357P) (MR-08483X), (75647Z), AMC, 14 May 2001.

Vikram Singh (MS-14330K) (MR-08251Y), (NAVY-75791A), AMC, 21 Jul 2005.

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy DGAFMS (Pers)

No. 403, the 17th Jul 2007.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Arnabesh Mitra, (IC-56888), Mech Inf—16 Dec 2004

SHIV RAM BAIRWA

Dy Dir

MS-8C

No. 404, the 18th Jul 2007.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Santosh Kumar Mishra (MR-08223M), AMC, 25 Feb 2006

Balbir Singh (MR-08294N), AMC, 05 Feb 2007

Amit Kumar (MR-08440H), AMC, 21 Mar 2007

Inderjeet Singh Monga (MR-08288A), AMC, 12 Mar 2007

Poran Jyoti Borpujari (MR-08398P), AMC, 15 Mar 2007

Ajit Bhardwaj (MR-08302F), AMC, 02 Apr 2007

Vikas Puri (MR-08390H), AMC, 24 Jan 2007

Sandeep Poonia (MR-08389N), AMC, 27 Jan 2007

Binu Sekhar M (MR-08247W), AMC, 29 Jan 2007

Bikram Kumar Dutta (MR-08249F), AMC, 18 Feb 2007

Flt Lt to be Sqn Ldr

Preeti Tripathi (MR-07694N)(AF-26908), AMC, 04 Mar 2007

Anuj Singhal (MR-07718M)(AF-26912), AMC, 04 Mar 2007

Vijoy Kumar Jha (MR-07741A)(AF-26909), AMC, 04 Mar 2007

G RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

No. 405, the 13th Jul 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt PC Gajbhiye (TA-41682), Engr, 16 Dec 2004

Lt TP Singh (TA-41734), Engr, 16 Dec 2004

Lt SV Waghmare (TA-42236), Engr, 16 Dec 2004

Lt SK Sagar (TA-42248), Engr, 16 Dec 2004

Lt VK Jain (TA-42249), Engr, 16 Dec 2004

Lt MG Gurumukhi (TA-42268), Engr, 16 Dec 2004

Lt SK Choudhury (TA-42274), Engr, 16 Dec 2004

Lt Rishi Lal (TA-42291), Engr, 16 Dec 2004

Lt Tarun Huria (TA-42405), Engr, 16 Dec 2004

Lt Narendra Singh Negi (TA-42409), Engr, 16 Dec 2004

N KALIAPPAN
Under Secy

No. 406, the 18th Jul 2007.—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquished their short service commission in the Army Medical Corps wef 18 Jul 2005 and to grant her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Flt Lt to be Sqn Ldr

Flt Lt Nishant Dada Rao Mendhe (MS-14152M) (MR-08433M) (AF-26074K), AMC, 24 Jul 2004

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt

Flt Lt Sangappa Shanker Rao (MS-14251P) (MR-08441L) (AF-26473R), AMC, 05 Jul 2001.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Oct 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Flt Lt Pallavi Goswami (MS-14301P) (MR-08443W) (AF-26498F), AMC, 21 Jan 2002.

With seniority for pay and promotion from 21 Jan 1999 (this includes 36 months antedate for PG Qualification in MD (Physiology) which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Flt Lt Nishant Dada Rao Mendhe (MS-14152M) (MR-08433M) (AF-26074K), AMC, 24 Jan 2001.

With seniority for pay and promotion from 24 Jul 2000 (This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt (On Probation)

Surg Lt Vikram Singh (MS-14330K) (MR-08251Y) (NAVY-75791A), AMC, 21 Jan 2002 with seniority for pay and promotion wef 21 Jul 2001 (this includes 06 months antedate for hospital appointment, which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 13 Dec 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their short service commission in the Army Medical Corps wef 10 Jan 2006 and to grant his permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Capt Gurtej Singh (MS-14493X) (MR-08473N), AMC, 19 Dec 2002

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 18 Sep 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Capt (On Probation)

(Miss) Preeti Tripathi (MS-13901L) (MR-08321M), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 11 Dec 1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Mar 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Prasad B S R K (MS-14315P) (MR-08309L), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 21 Jan 2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt (On Probation)

Harvinder Pal Singh Sahota (MS-14505F) (MR-08332Y), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 07 Jan 2003. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25 Dec 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt (On Probation)

Shivanand Dalawai (MS-14094N) (MR-08320K) (75742R), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 22 Jan 2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12 Jan 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Anand P (MS-13542H) (MR-08326L) (75658Z), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 28 Dec 1998. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Feb 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their short service commission in the Army Medical Corps wef 15 Jun 2006 and to grant his permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Capt Anurag Jain (MS-14769H) (MR-08469L), AMC, 17 Feb 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Vindhaya Vishal (MS-14747K) (MR-08466X), AMC, 08 Dec 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Girish Bhardwaj (MS-14666K) (MR-08463K), AMC, 18 Nov 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Gunjan Rai (MS-14627L) (MR-08461Y), AMC, 07 Apr 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Anand Gupta (MS-14691H) (MR-08436A), AMC, 09 Dec 2003 with seniority for pay and promotion wef 09 Dec 2000 [this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Awanish Karan (MS-14458P) (MR-08439N), AMC, 19 Dec 2003 with seniority for pay and promotion wef 19 Jun 1999. [this includes 42 months antedate for MD Otorhinolaryngology (ENT) and hospital appointment which will not count for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Naveen Chandra (MS-14433H) (MR-08457W), AMC, 27 Feb 2002 with seniority for pay and promotion wef 27 Feb 1999. [this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Oct 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Nusumu Purnachandra Rao (MS-14210L) (MR-08442N), AMC, 08 Feb 2001 with seniority for pay and promotion wef 08 Feb 1999. [this includes 24 months antedate for Post Graduate Qualification Master of Surgery (Otorhinolaryngology) which will not count for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their short service commission in the Army Medical Corps wef 04 Dec 2006 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt

Capt Manoj Kumar Singh (MS-13631F) (MR-08471H), AMC, 09 Jul 1999 with seniority for pay and promotion wef 09 Jan 1999. [this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 09 Mar 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Sumit Lathwal (MS-14435N) (MR-08472L), AMC, 13 Mar 2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Jasmeet Khanna (MS-13338K) (MR-08453A), AMC, 12 Dec 1997 with seniority for pay and promotion wef 12 Dec 1995. [this includes 24 months antedate for MD (Medicine) which will not count for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 23 Sep 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Mukesh Kumar Choudhary (MS-14032N) (MR-08454H), AMC, 03 Feb 2000.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 29 Jun 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Yogender Yadav (MS-13528W) (MR-08470A), AMC, 08 Nov 1997.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Feb 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Rajesh Girdhar (MS-14762Y) (MR-08468H), AMC, 17 Feb 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Alok Jaiswal (MS-14821A) (MR-08481M), AMC, 17 Feb 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt (Miss) Radhika (MS-14760N) (MR-08479P), AMC, 17 Feb 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Tanu Tripathi (MS-14748M) (MR-08478M), AMC, 09 Dec 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Vivek Tewari (MS-14746F) (MR-08477K), AMC, 04 Dec 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Seema Sharma (MS-14684M) (MR-08476F), AMC, 08 Dec 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Manish Kumar Singh (MS-14564N) (MR-08474W), AMC, 17 Mar 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Rohit Tandon (MS-14570F) (MR-08460W), AMC, 07 Apr 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Kandula Krishna Mohan (MS-14297X) (MR-08455L), AMC, 21 Jan 2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 13 Dec 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Capt Harsh Mohinder Singh (MS-14511P) (MR-08459F), AMC, 28 Jan 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt

Surg Lt Rakesh Kumar Singh (MS-14630L) (MR-08462F), (NAVY-75819R), AMC, 07 Apr 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Lt (Miss) Parinita Dube (MS-13357P) (MR-08483X), (75647L), AMC, 14 Nov 1997 with seniority for pay and promotion wef 14 May 1997. [this includes 06 months antedate for hospital appointment, which will not count for pension not for gratuity].

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 23 Sep 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (Pers)